



मध्यप्रदेश विधान सभा
संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)
मंगलवार, दिनांक 17 दिसम्बर, 2019 (अग्रहायण 26, शक संवत् 1941)
विधान सभा पूर्वाह्न 11:05 बजे समवेत हुई.
अध्यक्ष महोदय (श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति "एन.पी.") पीठासीन हुए.

1. राष्ट्रगीत 'वन्दे मातरम्' का समूहगान

सदन की कार्यवाही राष्ट्रगीत 'वन्दे मातरम्' के समूहगान से प्रारम्भ हुई.

2. निधन का उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित के निधन पर सदन की ओर से शोकोदगार व्यक्त किये गये:-

- (1) श्री बाबूलाल गौर, मध्यप्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री,
- (2) श्री कैलाश जोशी, मध्यप्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री,
- (3) श्रीमती सुषमा स्वराज, भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री,
- (4) श्री अरूण जेटली, भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री,
- (5) श्री एस. जयपाल रेड्डी, भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री,
- (6) डॉ. जगन्नाथ मिश्र, भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री,
- (7) श्री राम जेठमलानी, भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री,
- (8) श्री लक्ष्मीनारायण नायक, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
- (9) श्री मेहरबान सिंह रावत, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
- (10) श्री राज बहादुर सिंह, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा तथा
- (11) श्री टी.एन. शेषन, भूतपूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त.

सर्वश्री कमलनाथ, मुख्यमंत्री, गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष एवं शिवराज सिंह चौहान, सदस्य ने भी शोकोदगार व्यक्त किये.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की ओर से शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की गई तथा सदन द्वारा 2 मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई.

तत्पश्चात् दिवंगतों के सम्मान में पूर्वाह्न 11.50 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 18 दिसम्बर, 2019 (अग्रहायण 27, शक संवत् 1941) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

भोपाल:
दिनांक: 17 दिसम्बर, 2019

ए. पी. सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा